



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102023-249367
CG-DL-E-12102023-249367

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4284]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 12, 2023/आश्विन 20, 1945

No. 4284]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 12, 2023/ASVINA 20, 1945

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2023

का.आ. 4455(अ).—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना, जो संख्यांक सा.का.नि.38(अ) तारीख 19 जनवरी, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड ii में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या (2), (4) और (6) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:

- | | | |
|------|---|----------|
| "(2) | श्री केशवन श्रीनिवासन,
11 ए श्रीराम नगर, वेस्ट सेंट।
अलवरपेट,
चेन्नई-600018 | - सदस्य; |
| (4) | श्री दीप मणि शाह
मुख्य महाप्रबंधक,
निगम वित्त विभाग,
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, | - सदस्य; |

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई-400051,

- (6) श्री राजेश कुमार भूत,
संयुक्त सचिव,
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड,
वित्त मंत्रालय,
नई दिल्ली

- सदस्य;"

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होगी।

[फा. सं.1/15/2010-पीआई खंड.1 (भाग-I)]

इन्द्र दीप सिंह धारीवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि.38(अ) तारीख 19 जनवरी, 2011 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सा.का.नि.684(अ) तारीख 16 सितंबर, 2011, सा.का.नि. 441(अ), तारीख 12 जून, 2012; सा.का.नि.486(अ), तारीख 21 जून, 2012; सा.का.नि.810(अ), तारीख 5 नवंबर, 2012; सा.का.नि.131(अ), तारीख 1 मार्च, 2014,; सा.का.नि.569(अ), तारीख 7 अगस्त, 2014, सा.का.नि.837(अ), तारीख 24 नवंबर, 2014; सा.का.नि.563(अ), तारीख 20 जुलाई, 2015; सा.का.नि.744(अ), तारीख 30 सितंबर, 2015; सा.का.नि.681(अ), तारीख 12 जुलाई, 2016; सा.का.नि.376(अ) तारीख 17 अप्रैल, 2017; सा.का.नि.1155(अ), तारीख 30 नवंबर, 2018; सा.का.नि.699(अ), तारीख 30 सितंबर, 2019; सा.का.नि.312(अ), तारीख 26 मई, 2020; सा.का.नि.431(अ), तारीख 07 जुलाई, 2020; सा.का.नि.434(अ), तारीख 09 जुलाई, 2020; सा.का.नि.843(अ), तारीख 30 नवंबर, 2021; सा.का.नि.784(अ), तारीख 30 सितंबर 2022; सा.का.नि.856(अ), तारीख 29 नवंबर, 2022 के द्वारा संशोधित की गई और सा.का.नि.622(अ), तारीख 24 अगस्त, 2023 के द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2023

S.O. 4455(E).— In exercise of the powers conferred by section 28A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 38(E), dated the 19th January, 2011, namely:-

2. In the said notification, for serial numbers (2), (4) and (6) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:-

- | | |
|--|------------|
| “(2) Shri Kesavan Srinivasan,
11A Sriram Nagar, West St.,
Alwarpet,
Chennai-600018. | - Member; |
| (4) Shri Deep Mani Shah,
Chief General Manager,
Corporation Finance Department,
Securities and Exchange Board of India,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai- 400051, | - Member; |
| (6) Shri Rajesh Kumar Bhoot,
Joint Secretary,
Central Board of Direct Taxes,
Ministry of Finance,
New Delhi. | - Member;” |

3. This Notification shall take effect on the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/15/2010-PI Vol. 1 (Part-I)]

INDER DEEP SINGH DHARIWAL, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number GSR 38(E), dated the 19th January, 2011 and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 684(E), dated the 16th September, 2011; G.S.R. 441(E), dated 12th June, 2012; G.S.R. 486(E), dated the 21st June, 2012; G.S.R. 810(E), dated the 5th November, 2012; G.S.R. 131(E), dated the 1st March, 2014; G.S.R. 569(E), dated the 7th August 2014; G.S.R. 837(E), dated the 24th November, 2014; G.S.R. 563(E), dated the 20th July, 2015; G.S.R. 744(E), dated the 30th September, 2015; G.S.R. 681(E), dated the 12th July, 2016; G.S.R. 376(E), dated the 17th April, 2017; G.S.R. 1155(E), dated the 30th November, 2018; G.S.R. 699(E), dated the 30th September, 2019; G.S.R. 312(E), dated the 26th May, 2020; G.S.R. 431 (E), dated the 7th July, 2020; G.S.R. 434 (E), dated the 09th July, 2020; G.S.R. 843(E), dated the 30th November, 2021; G.S.R. 784 (E), dated the 30th September 2022; G.S.R. 856(E), dated 29th November, 2022 and lastly amended *vide*, G.S.R. 622(E) dated 24th August, 2023.